

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य दिनांक 26.10.2021:-

थाना नवाबगंज जनपद बरेली ।

प्रेम प्रसंग में हुयी हत्या का खुलासा, दो अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त कन्हईलाल की पत्नी से मृतक का अवैध सम्बन्ध था, अभियुक्तों की निशादेही पर आला कत्ल हशिया व गंडासा बरामद ।

थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम ढकिया खैरुद्दीन के जंगल में दिनांक 23.10.2021 को मृतक ओमकार पुत्र सियाराम निवासी ग्राम ढकिया खैरुद्दीन थाना नवाबगंज जिला बरेली का सिर कटा शव गन्ने के खेत में मिला था तथा मृतक का कटा सिर दूसरे गन्ने के खेत एव नदी के किनारे गीली मिट्टी में दबा मिला था । जिसका थाना हाजा पर मृतक की पत्नी श्रीमती तारावती के द्वारा मु0अ0सं0 437/2021 धारा 302/201 भादवि0 बनाम अभियुक्तगण 1.कन्हईलाल पुत्र रामचरण 2. अमित पुत्र कन्हईलाल 3. ऐबरन पुत्र मनोहर दानी 4. मुकुल पुत्र हुकुम सिंह निवासीगण ढकिया खैरुद्दीन थाना नवाबगंज जिला बरेली पंजीकृत हुआ । विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि मृतक ओमकार के नाजायज सम्बन्ध नामित अभियुक्त कन्हईलाल की पत्नी से थे ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के निर्देशन में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नवाबगंज महोदय के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु निकट निर्देशन/पर्यवेक्षण में आज दिनांक 26.10.2021 को प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज द्वारा अभियुक्त 1.कन्हईलाल पुत्र रामचरण 2. अमित पुत्र कन्हईलाल निवासीगण ढकिया खैरुद्दीन थाना नवाबगंज जिला बरेली को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों की निशादेही पर गन्ने के खेत से एक प्लास्टिक के थैले में रखे आला कत्ल हशियां एवं गंडासा एवं खून से सनी अभियुक्त कन्हईलाल की शर्ट बरामद की गयी। अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि कन्हईलाल की पत्नी महेन्द्रवती से मृतक ओमकार यादव के लगभग तीन साल से प्रेम सम्बन्ध थे तथा महेन्द्रवती मृतक ओमकार के साथ भाग गई थी अब करीब 01 माह पहले से वापस अपनी ससुराल में अभियुक्त कन्हईलाल के पास ही रह रही थी तथा छुप-छुपकर मृतक ओमकार से मिलती थी और बात करती थी जिसके कारण आवेश में आकर अभियुक्त कन्हईलाल एवं इसके पुत्र अमित ने मिलकर उक्त बरामद हशिया व गंडासा से गर्दन काटकर हत्या कर दी और पहचान छुपाने के लिए शव को गन्ने के खेत में छुपा दिया और सिर को नदी किनारे दबा दिया । गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. कन्हईलाल पुत्र रामचरण निवासी ढकिया खैरुद्दीन थाना नवाबगंज जिला बरेली ।
2. अमित पुत्र कन्हईलाल निवासी ढकिया खैरुद्दीन थाना नवाबगंज जिला बरेली ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:- मु0अ0सं0 437/2021 धारा 302/201 भादवि0 ।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.आला कत्ल एक अदद हशिया
- 2.एक अदद गंडसा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार काम्बोज थाना नवाबगंज, बरेली
- 2.उ0नि0 गजेन्द्र सिंह थाना नवाबगंज, बरेली
- 3.हे0का0 381 सुग्रीव सिंह थाना नवाबगंज, बरेली
- 4.का0 2864 हरिओम सैनी थाना नवाबगंज, बरेली
- 5.का0 3417 अजीत सिंह थाना नवाबगंज, बरेली
- 6.का0 172 तरुण कुमार थाना नवाबगंज, बरेली